SADHNA BROADCAST LIMITED

[Formerly known as Chirau Broadcast Network Limited]

CIN: L92100DL1994PLC059093

Date: 02.11.2022

To

BSE Limited Metropolitan Stock Exchange Limited

PhirozeJeejeebhoy Towers, 205(A), 2nd Floor, Piramal Agastya Corporate Park,

Dalal Street, Kamani Junction, LBS Road, Kurla (West), Mumbai-400001 Mumbai-400070

Sub: Newspaper Advertisement under Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

With reference to the above captioned subject, please find enclosed herewith the clippings of the English newspaper "Financial Express" and Hindi Newspaper "Jansatta" dated 02th November, 2022in which Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2022 has been published.

This is for your kind information and record please.

Thanking You.

For Sadfing Broadcast Limited

Mame: Tajingerkaur DIN: 06799570

Designation: Managing Director

Address: 24/27 Front Side,

West Patel Nagar, New Delhi-110008

Place: Delhi

Phone: 91-11-23552627, Fax No.: 91-11-23524610

FINANCIAL EXPRESS



Name and Address

of the Borrower/s

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

Corporate Office: 1st Floor, 'Dare House', No.2, N.S.C. Bose Road, Chennai-600 001. Branch Office: Plot No.5, Padam Plaza, H-1 & 2, 3rd Floor, Sector 16 B, Avas Vikas Colony, Sikandra, Yojna, Uttar Pradesh 282007

Description of the

property/ Secured Asset

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13[2] OF THE SECURITISATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002

Loan Amount Notice & Amount

You, the under mentioned Borrower / Mortgagor is hereby informed that the company has initiated proceedings against you under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and that the Notice under 13 (2) of the Act sent to you by Registered Post Ack. Hence, you are hereby called upon to take notice and pay the outstanding loan amount mentioned against the said account with interest accruing there from within 60 days from the date of this publication, failing which the company will proceed against you by exercising its right under Sub-Sec (4) of Section 13 of the Act by enforcing the below mentioned security to realize its dues with interests and costs. It is needles to mention that this notice is addressed to you without prejudice to any other remedy available to the company. Date of Demand

CARLO AND DESCRIPTION OF DAY	because of the same	Outstanding	Carried and Contract of the Co
Loan Account No X0HEAHE00002272375) Borrower & Co-Borrowers:- 1. ASHISH AGARWAL 2. NITIN AGARWAL 3. M/S SHRI GIRRAJ JI TRADERS 1 to 3 At: 137/105 Shahaganj Darwaja Kacchi Sadak Mathura, Mathura, Uttar Pradesh-281001 4. SWETA AGARWAL At: 127/105 Shahaganj Darwaja Kacchi Sadak Mathura, Mathura, Uttar Pradesh-281001 5. HARI SHANKER AGRAWAL At: 137/105 Shahganj Darwaja, Kachchi Sadak, Mathura, Uttar Pradesh-281001	[Rupees	18-10-2022 Rs.2051761/- [Rupees Twenty Lac Fifty One Thousand Seven Hundred Sixty One Only] as on 10-10- 2022	

Date: 02/11/2022 Place MATHURA Authorised Officer: Cholamandalam Investment And Finance Company Limited



CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED Chola Corporate Office: 1st Floor, 'Dare House', No.2, N.S.C. Bose Road, Chennal-600 001

Inter a better to Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi -110 005. POSSESSION NOTICE

Under Rule 8 (1)

WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited .under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter called the Act and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 9 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [8] below on dates specified in Column [C] to repay the outstanding amount indicated in Column [D] below with interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in general that the

undersigned has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column [E] herein below on the respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under Section 13[4] of the Act read with Rule 9 of the Rules made The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [E] below and

any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited for an amount mentioned in Column [D] along with interest and other charges.

Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem the secured asset by payment of the entire outstanding including all costs, charges and expenses before notification of sale.

SL NO	NAME AND ADDRESS OF BORROWER & LOAN ACCOUNT NUMBER	DATE OF DEMAND NOTICE	OUTSTANDING AMOUNT	DETAILS OF PROPERTY POSSESSED	DATE OF POSSESSION
[A]	[8]	[C]	[D]	[E]	[F]
1.	Loan A/c No. X0HEDET00002669289.) 1. SANDIP SINGH At: D-45 Rajouri Garden New Delhi-110027 2. NOORPREET SINGH BHATIA At: D-45 Rajouri Garden, janta Market New Delhi - 110027 3. SANDIP SINGH At: D-45 Rajouri Garden New Delhi-110027 4. BABBAL BHATIA At: D-45 Rajouri Garden New Delhi-110027 5. JAPPREET SINGH BHATIA At: D-45, D BLOCK MAVAPURI CHOWK, RAJOURI GARDEN , NEWDELHI-110027	10.06.2021	Rs. 69090548.79 09-06-2021	All that piece and parcel of the property bearing Plot No.45, 8lock-D, area measuring 276.35 sq.yds out of land measuring 533.35 sq.yds part of plot land measuring 1600 sq.yds situated at Rajouri Garden, New Delhi and bounded on the North by Satbinder Singh Portion South by Road 50 feet wide East by 210 feet wide Ring Road West by Jagmohan Singh Portion	29-Oct-2022 PHYSICAL

TATA TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD. Registered Address: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg,

Lower Parel, Mumbai - 400013. Branch Address: TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED, B-36, 1St & 2Nd Floor, Laipat

Nagar - Part 2, Above Hdfc Bank, New Delhi 110024. NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

(Under Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002) E-Auction Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and

Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the below Borrower and/ Co- Borrower, or their legal heirs representatives (Borrowers) in particular that the below described immovable property mortgaged to Tata Capital Housing Finance Ltd. (TCHFL), the Possession of which has been taken by the Authorised Officer of TCHFL, will be sold on 22-11-2022 on "As is where is" & "As is what is" and "Whatever there is" basis for recovery of outstanding dues from below mentioned Borrower and Co-Borrowers. The Reserve Price and the Earnest Money Deposit is mentioned below. Notice is hereby given that, in the absence of any postponement discontinuance of the sale, the said secured asset / property shall be sold by E-Auction at 2.00 P.M. on the said 22-11-2022. The sealed envelope containing Demand Draft of EMD for participating in E-Auction shall be submitted to the Authorised Officer of the TCHFL on or before 21-11-2022 till 5.0 PM at Branch address TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED, B-36, 1St & 2Nd Floor, Laigat Nagar Part 2, Above Hdfc Bank, New Delhi 110024.

The sale of the Secured Asset/Immovable Property will be on "as is where condition is" as per brief particulars described herein below;

Sr. No	Loan A/c. No	Name of Borrower(s) / Co- borrower(s)Legal Heir(s) / Legal Representative/ Guarantor(s)	Amount as per Demand Notice	Reserve Price	Earnest Money	Type of possession
1.	9417 527	MR. NEERAJ CHAUDHARY (BORROWER). MRS. MONIA CHAUDHARY (CO-BORROWER), SAPPHIRE DIGITAL PRINTERS (CO-BORROWER),	Rs.1,57,76,204/- (Rupees One Crore Fifty Seven Lakh Seventy Six Thousand Two Hundred Four Only) 25-09-2020	Rs. 92,00,000/- (Rupees Ninety Two Lakh Only)	Rs. 9,20,000/- (Rupees Nine Lakh Twenty Thousand Only)	Symbolic

2.	9417 050	MR. NEERAJ CHAUDHARY (BORROWER), MRS. MONIA CHAUDHARY (CO-BORROWER), SAPPHIRE DIGITAL PRINTERS (CO-BORROWER),	Rs. 1,56,86,995/- (Rupees One Crore Fifty Six Lakh Eighty Six Thousand Nine Hundred Ninety Five Only) 25-09-2020	Rs. 92,00,000/- (Rupees Ninety Two Lakh Only)	Rs. 9,20,000/- (Rupees Nine Lakh Twenty Thousand Only)	Symbolic
De	scriptio	on of the Immovable Property: Apart	iment No. VS-7/ Bungalow No. 2, Tower I	No. VS-7, 2nd F	loor, RISE SKYBU	NGLOWS

GH-02-, SECTOR-41, FARIDABAD, HARYANA-121010, ADMEASURING AREA: 2300 SQ. Ft. Built up area of 2300 Sq. Ft. (including of Balcony Area). 3. 9417 MR. NEERAJ CHAUDHARY Rs.1,23,74,776/- (Rupees One Rs. 9,20,000/- Symbolic

	027	CHAUDHARY (CO SAPPHIRE DIGIT (CO-BORROWER	O-BORROWER). AL PRINTERS	Four Thousand Seven Hundred Seventy Six Only) 25-09-2020	(Rupees Ninety Two Lakh Only)	Lakh Twenty Thousand Only)	
				at Residential Property- UNIT NO. VS-8/BI IABAD, 121010 HARYANA, MEASURING			
4.		MR. SUMAN MONDAL S/O MR.		(Rupees Twenty Two Lakh Eighty Eigh Hundred Thirty Seven Only) is due and		Rs. 5,40,000/-	Symbolic

088 8 8 946	MR. SUMAN MONDAL S/O MR. TARASIS MONDAL (Borrower) MR. INDERNEEL MONDAL S/O MR. TARASIS MONDAL (Co-borrower).	amount of Rs. 22,89,347/- (Rupees Twenty Two Lakh Eighty Nine Thousand Three Hundred Forty Seven Only) is due and payable by you under Loan Account No. 9460210	Rs. 54,00,000/- (Rupees Fifty Four Lakh Only)	Rs. 5,40,000/- (Rupees Five Lakh Forty Thousand Only)	Symbolic
-------------------	---	---	---	--	----------

Description of the Immovable Property: 1) Flat No. 506, 05th Floor, Admeasuring 1150 Sq. Feet, Tower – Jubilant, Sikka Kaamna Greens, Plot No. GH-03B, Sector 143, Noida - 201301 (Ultar Pradesh), 2) Flat No. 606, 06th Floor Admeasuring 1150 Sq. Feet, Situated at Tower - Jubilant, Sikka Kaamna Greens, Plot No. GH-03B, Sector 143, Noida - 201301 (Uttar Pradesh). At the Auction, the public generally is invited to submit their bid(s) personally. The Borrower(s)/Co-Borrower (s) are hereby given last

chance to pay the total dues with further interest within 15 days from the date of publication of this notice, failing which the Immovable Property will be sold as per schedule. The E auction will be stopped if, amount due as aforesaid, with interest and costs (including the cost of the sale) are tendered to the Authorised Officer or proof is given to his satisfaction that the amount of such secured debt, interest and costs has been paid before the date of the auction. No officer or other person, having any duty to perform in connection with this sale shall however, directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the Immovable Property sold. The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and to the following further conditions:

NOTE: The E-auction of the properties will take place through portal https://bankauctions.in/ on 22-11-2022 between 2.00 PM to 3.00 PM with limited extension of 10 minutes each

Terms and Condition: 1. The particulars specified in the Schedule herein below have been stated to the best of the information of the

undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation, in the event of any dispute arising as to the amount bid, or as to the bidder, the Immovable Property shall at once again be put up to auction subject to the discretion of the Authorised Officer. 2. The Immovable Property shall not be sold below the Reserve Price. 3. Bid Increment Amount will be Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand Only) 4. All the Bids submitted for the purchase of the property shall be accompanied by Earnest Money as mentioned above by way of a Demand Draft favoring the "TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD." Payable at Branch address. The Demand Drafts will be returned to the unsuccessful bidders after auction. For payment of EMD through NEFT/RTGS/IMPS kindly contact Authorised Officer. 5. The highest bidder shall be declared as successful bidder provided always that he/she is legally qualified to bid and provided further that the bid amount is not less than the reserve price. It shall be in the discretion of the Authorised Officer to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so. 6 For reasons recorded, it shall be in the discretion of the Authorised Officer to adjourn/discontinue the sale. 7. Inspection of the Immovable Property can be done on 14-11-2022 between 11 AM to 5.00 PM with prior appointment. 8. The person declared as a successful bidder shall, immediately after such declaration, deposit twenty-five per cent of the amount of purchase money/bid which would include EMD amount to the Authorised Officer within 24Hrs and in default of such deposit, the property shall forthwith be put to fresh auction/Sale by private treaty. 9. In case the initial deposit is made as above, the balance amount of the purchase money payable shall be paid by the purchaser to the Authorised Officer on or before the 15th day from the date of confirmation of the sale of the property, exclusive of such day, or if the 15th day be a Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day. 10. In the event of default of any payment within the period mentioned above, the property shall be put to fresh auction/Sale by private treaty. The deposit including EMD shall stand forfeited by TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD and the defaulting purchaser shall lose all claims to the property. 11. Details of any encumbrances, known to the TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD, to which the property is liable: Nil. Claims, if any, which have been put forward to the property and any other known particulars bearing on its nature and value: NIL. The Intending Bidder is advised to make their own independent inquiries regarding encumbrances on the property including statutory liabilities arears of property tax electricity etc. 12, For any other details or for procedure online training on e-auction the prospective bidders may contact the Service Provider, M/s. 4Closure, Block No.605 A, 6th Floor, Maitrivanam Commercial Complex, Ameerpet, Hyderabad - 500038 through its coordinators Mr. U.Subbarao, Mob., No. 8142000061, subbarao, Bankauctions in or Manish Bansal, Email id Manish.Bansai@tatacapital.com Authorised Officer Mobile No 8588983696. Please send your query on WhatsApp Number -9999078669. 13. TDS of 1% will be applicable and payable by the highest bidder over the highest declared bid amount. The payment needs to be deposited by highest bidder in the PAN of the owner/ borrower(s) and the copy of the challan shall be submitted to our company, 14. Please refer to the below link provided in secured creditor's website https://bit.ly/3UgTQLB for the above details.

Please Note - TCHFL has not engaged any broker/agent apart from the mentioned auctioning partner for sale/auction of this property Interested parties should only contact the undersigned or the Authorised officer for all queries and enquiry in this matter.

Sd/- Authorized Officer, Tata Capital Housing Finance Ltd.



Muthoot Homefin (India) Ltd Corporate Office: 1201 & 1202, 12th Floor, 'A' Wing, Lotus Corporate Muthoot Homefin | Park, Off. Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai - 400 063.

The undersigned is the Authorised Officer of Muthoot Homefin (India) Ltd. (MHIL) under Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement Rules, 2002, the Authorised Officer has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower's (the "said Borrower"), to repay the mounts mentioned in the respective Demand Notice/s issued to them that are also given below. n connection with above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower to pay to MHIL, within 60 days from the publication of this Notice, the amount

ndicated herein below, together with further interest at 2% p.m. as detailed in the said Demand Notices, from the dates mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrowers, As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to MHL by the said Borrowers respectively. Sr | Name of the Borrower(s)/ Description of secured asset

NO.	Loan Account No./Branch	Dues (Rs.)	Notice	(immovable property)
	Rakesh / Priti / 058-05800220 / Noida	Rs. 507880 /- Rupees Five Lac Seven Thousand Eight Hundred	28-Sup-22	Plot No 266 Khasra No 223 Ram Endave, Village Banthala, Pargana Loni, Ghaziabad, Up-201102
W the	aid Borrowers shall fail to make o	Eighty Only	Il proceed ac	ainst the above secured assets under Section 13(4) of the
	지어 아니다 이 맛이면 가득하다면 생각이 하셨습니다.	he risks of the said Borrowers as to the		이 경기가 있다면 살아가 있다면 하는 것이 없는 것이 없다면

The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of MHIL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Act or Rules made thereunder, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act. **Authorised Officer** Place: Ghaziabad

For Muthoot Homefin (India) Ltd. Date: 02.11.2022

CONTINENTAL SECURITIES LIMITED Regd Office: Flat No. 301, Metro Plaza, Parivahan Marg Jaipur Rajasthan 302001 IN Email-continentalsecuritieslimited@gmail.com • Website: www.continentalsecuritiesltd.com

Phone No: 0141-2943037, CIN: 167120RJ1990PLC005371 NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing

Obligations and Disclosure Requirements! Regulations, 2015 (Listing Regulations), Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, O9th November, 2022 at 03:00 P.M at the registered office of the company inter alia, to consider and approve standalone Unaudited financial Results of the company for the Second quarter and half year ended on September 30th, 2022. Further the trading window for dealing in securities of company is already closed for all designated persons of the company and their immediate relatives from 1 st October 2022 and the same will remain clesed till 48 hours after the results are made public on November - 05th, 2022 for the quarter and half year ended on 30th September, 2022. For CONTINENTAL SECURITIES LIMITED

Date: 01.11.2022 Place: Jaipur

Sdi- Pravita Khandelwal (Company Secretary)

CAPRIGLOBAL CORRIGENDUM

This is in reference to the Sale notice for sale of immovable properties published Under Section (Rule 8 (6) & 9 (1) of SARFAESI Act. published in this news paper on 20-Oct-

In the Wrongly written in 27. Please Note that for Property No. 1 (Loan Account no. LNCGCKKDTL0000004418) Mrs. Mala Sharma has filed Securitization Application vide Dairy no. 827/2020, before DRT-2 who is claiming herself as owner of. Second and Third floor with roof rights and One Mrs. Rama Sharma has also filed Securitization Application vide SA no. 48/2021 before DRT-2 who is claiming herself as owner of Ground floor.

Pls Read as in 27. Please Note that for Property No. 1 (Loan Account no. LNCGCKKDTL0000004415) Mrs. Mala Sharma has filed Securitization Application vide Dairy no. 827/2020. before DRT-2 who is claiming herself as owner of First & Second floor with roof rights and One Mrs. Rama Sharma has also filed Securitization Application vide SA no. 48/2021 before DRT-2 who is claiming herself as owner of Ground floor. The change should be read as part and Parcel of the earlier publication.

Sd/- Authorised Officer Place: DELHI/ NCR Date: 02-11-2022 Capri Global Calital Limited

PUBLIC NOTICE FOR APPEARANCE BEFORE THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, MUMBAI

Interim Application No. of 2022 Recovery Proceeding No. 16 of 2015

Original Application No. 677 of 2001

Usha Ispat Limited & Ors.

Stressed Assets Stabilization Fund

1. Vinay Kulwant Rai

Plot No.12, Aurangzeb Lane, New Delhi-110001

2. Anil Kulwant Rai Plot No.58 and 63, Block B-II, The Mohan Co-operative Industrial Estate, Pul Pehladpur, Taipur Badarpur, New Delhi-110044.

Upon instructions of my clients, the Applicant abovenamed I have filed Interim Application for Attachment, and Disclosure of Assets filed against you. Earlier we tried to serve you notices of hearing on your aforesaid address. However, you were not found at the said

address. In such case I have to publish this notice. Taken notice that the matter is listed for hearing on 12th December, 2022 at 02.30 p. m. before the Learned Recovery Officer, DRT-I, Mumbai, when you may remain present of you so desire. Yours truly,

Sd/-(SUNIL M. KADAM) Advocate for the Appellant Office No.27/28, Nafees Chamber,

... Applicants

... Defendants

Defendant No.2

Defendant No.3

123, Mody Street, Fort, Mumbai - 400 001 Mobile - 9820019218/9082417042



Darticulare

Branch: 4/14A, Asaf Ali Road, Delhi

POSSESSION NOTICE (for immovable property) Whereas, the undersigned being the authorised officer of Union Bank of India, Asaf Ali

Road Delhi under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest. Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 08.08.2022 calling upon the borrower Mr. Azad and Mrs. Seema to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 28,16,051,77 (Rs. twenty eight lakhs sixteen thousand fifty one and paise seventy seven only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 31st day of October the year 2022. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the

property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Union Bank of India, Asaf Ali Road, Delhi for an amount Rs. 26,75,680.47 (Rs twenty six lakhs seventy five thousand six hundred eighty and paise forty seven only) and interest

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act. in respect of time available to the borrower to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY All that part of the property consisting of Property no.57 and 58, Entire 2nd Floor,

Block-A, Pocket-2, Sector-11, Rohini, Delhi, Bounded as: (For property bearing No. 57) North - Entry, South - Service lane, East - Plot no. 58, West - Plot no. 58 (For property bearing No.58) North - Entry, South - Service Lane, East - Plot no.57, West

Piotno. 59

Date: 31-10-2022 Place: Delhi Authorised Officer, UNION BANK OF INDIA

SADHNA BROADCAST LIMITED Regd. Off.: 37th Second Floor, Rani Jhansi Road Motia khan, Paharganj, Delhi -110055 Email ID: cbnl.delhi@gmail.com Website: www.sadhnabroadcast.com Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Result

For The Quarter Ended 30th September, 2022

(Refer Notes Below)	(36/09/2022) (Unaudited)	(30/06/2022) (Unaudited)	3 Months Ended in the previous year (30/09/2021) (Unaudited)	(30/09/2022) (Unaudited)
Total Income from Operations Net Profit/(Loss) for the	231.29	375.67	628.18	606.96
period(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary/tems*)	-49.15	46.83	15.75	-2.32
 Net Profib(Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items*) 	-49.15	46.83	62.87	-2.32
4. Net Profit (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-53,80	35.23	44.13	-18,58
5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit!(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income(after tax)] 6. Equity Share Capital	-53.80 1 min 2 ms	35 23 1 002 65	44.13 1,002.65	-18.58 1.002.65
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	0.00	0.00		9.00
8 Earning Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic: 2. Diluted: Notes	(0.54) (0.54)	0.35 0.35	0.44 0.44	(0.19) (0.19)

The above is an extract of the detailed format of Quarter Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Financial Results are available on the websites

with Ind-AS Rules/AS Rules, whichever is applicable. For SADHNA BROADCAST LIMITED

due to changes in accounting policies shall be disclosed by means of foot note.

The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial items.

Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance

of the Stock Exchange(s) and the listed entity

Date : 31.10.2022

Name : Tajinder Kauc Designation: Managing Director DIN.: 06799570

DEMAND

NOTICE

■ HDFC BANK Plot # 31, Najafgarh Industrial Area, Tower-A, 1st Floor, Shivaji Marg. Moti Nagar, New Delhi - 110015 "APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 8 (6)] Sale notice for sale of immovable properties

Legal Cell

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guaranton

(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of HDFC Bank Ltd. Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 13th December 2022, for recovery of Rs. 54,03,114/- o/s as on 01.08.2019 along with further interest and charges applicable due to the HDFC Bank Ltd. Secured Creditor from (i) M/s Gupta Sales Through Its Proprietor Mr. Sunil Gupta, (ii) Mr. Sunil Gupta & (iii) Mrs. Tanisha Gupta. The reserve price will be Rs. 47,00,000/- and the earnest money deposit will be Rs. 4,70,000/-. Short description of the immovable property House No. T-215 Area Measuring 80 Sq. Yds. Part Of Khasra No. 237 Situated In The Area Of

Village Mamurpur, Colony Known As Gali No. 1, Shivaji Nagar, Narela, Delhi-110040. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in HDFC Bank Ltd. Secured Creditor's website. https://www.hdfcbank.com/personal/resources/important-notices. Date: - 01.11.2022 **Authorised Officer** Place: - Delhi HDFC Bank Ltd.

Edelweiss EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. LTD. CIN - U67100MH2007PLC174759 Registered Office: Edelweiss House, Off CST Road, Kalina.

Mumbai 400098 APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE

The authorized officer of State Bank of India ("Original Lender"/"Assignor Bank"

under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, ssued demand notice dated October 03, 2013 calling upon the Borrower M/s KLG Systel Limited (in Liquidation), Guarantors Mr. Kumud Goel and Mrs Pushap Lata Goel to pay the amount mentioned in the said notice being a sum of Rs. 1,68,68,69,408 (Rupees One Hundred Sixty Eight Core Sixty Eight Lakh Sixty Nine Thousand Four Hundred and Eight only) due as on October 03, 2013, along with further interests, costs and expenses: thereon within 60 days from the date of receipt of said notice.

September 09, 2022 passed by the Hon'ble High Court of Judicature at Punjab and Haryana ("High Court") in "CA No. 270 of 2016, the Official Liquidator has handed over peaceful, physical possession of the secured assets more specifically mentioned herein below to the undersigned. The undersigned being the Authorised Officer of Edelweiss asset Reconstruction Company Ltd. acting in its capacity as Trustee of EARC Trust SC 30 ("EARC") has taken physical possession of the secured assets more specifically mentioned herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section of the Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on October 31, 2022.

The borrower, guarantors and mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of EARC for an amount of Rs. 1,68,68,69,408 (Rupees One Hundred Sixty Eight Core Sixty Eight Lakh Sixty Nine Thousand Four Hundred and Eight only) due as on October 03, 2013 along with further interests, costs and expenses thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. DESCRIPTION OF SECURED ASSET

All that piece and parcel of land being Plot No. 24. Sector 18, Electronics City. Gurgaon, Haryana along with all the building/structures and the plant and machinery and other movables, whether affixed or movable, lying thereon.

Place: Gurugram, Haryana

Unit No. 307 to 310, 3rd Floor, Kakade Biz Icon Building, Shivaji Nagar, Pune- 411016 TRC/303/2017 06.10.2022 WARRANT OF ATTACHMENT OF IMMOVABLE PROPERTY UNDER RULE 48 OF THE

SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 ASREC (INDIA) LTD.

CD 1. M/s. Parasrampuria Synthetics Ltd., Registered Office at: S.P. 145, D-1.

M/S. PARASRAMPURIA SYNTHETICS LTD. & ORS.

RIICO Industrial Area, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan) Corporate Office: 103, Surva Mansion, 1, Kaushalya Park, Hauz Khas, New Delhi- 110 016. CD 2. Shri. Ratan Lal Parasrampuria, 141, Rewa Apartments, Bhulabhai Desai

Road, Mumbai- 400 026.

CD 3. Shri. Om Prakash Parasrampuria, S-80, Panchsheel Park, New Delhi- 110 017. CD 4. Shri. Alok Parasrampuria, S-80, Panchsheel Park, New Delhi- 110 017.

44,73,20,254/- (Rupees Fourty Four Crores Seventy Three Lakhs Twenty Thousand Two Hundred Fifty Four Only) payable by you in respect of Certificate No. RC/303/2017 drawn up by

Whereas (C.D) M/S. PARASRAMPURIA SYNTHETICS LTD. was ordered by the presiding Officer, DEBT RECOVERY TRIBUNAL-II, Delhi who had issued the Recovery Certificate dated nil in OA/60/2006 to pay to the certificate holder Bank and whereas the sum has not It is ordered that you the Certificate Debtor as set forth are hereby prohibited and restrained

property, in any way, and that all persons be, and that they are hereby prohibited from taking any benefit under such transfer or charge. 3. You are required to appear before the Recovery Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

PUNE on 20.12.2022 at 10:30 a.m. to take notice of the date to be fixed for setting terms of proclamation of sale DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF CD-1

At Village Belpada, Kawade and Sonkota, Alibag in Raigad District Area

Gat/ Village Name of Owner Name of Owner Village S.No. S.No.

M/s. Parasrampuria Sonkata 41/2 0.58.9 Sonkata 31/6 0.41.7 Synthetics Ltd. Sonkata 37/3B 0.28.3 Sonkata 21/1A 0.27.4 Kawade 37/1 1.01.0 Sonkata 16/3 0.24.4 Kawade 39/3 0.58.0 Sonkata 72/2 0.30.6 Kawade 16/9 0.04.0 Sonkata 9/6 0.26.9 Betpada 108 0.51.0 Sonkata 37/2A 0.22.5 Belpada 110 0.42.0 Sonkata 18/2 0.44.5 Belpada 92 0.47.0

Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: 06.10.2022

I/C. of Recovery Officer-I, Debts Recovery Tribunal, Pune

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - 1 / II DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)

1st Floor SCO 33-34-35 Sector-17 A, Chandigarh (Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also) DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961.

RC/161/2020 FEDERAL BANK Versus

P N ELECTRONIC

(CD1) PN ELECTRONIC

Also At: M/s. P N Electronics & Electricals Pvt. Ltd. having its Registered Office At H. No.1A-107, First Floor, NIT Faridabad, Haryana-121001. Also At: House No.1A 107 First Floor NIT Faridabad, Haryana-121001.

(CD2) TEJINDER SINGH S/O. SH. TARA SINGH R/o House No.5F / 27A, NIT Faridabad, (Haryana).

Also At: House No. 1A-107, First Floor, NIT Faridabad-121001 (Harvana)

Also At: H. No. 1A-107. First Floor, NIT Faridabad, Harvana-121001. This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of

orders passed by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal For & on behalf of RAJESH GUPTA

IDIRECTOR DIN: 00949722 Simple Interest (Yearly) w.e.f. 10/07/2018 till realization and costs of Rs.0 (Only) has become due against you (Jointly and severally / Fully / Limited). (2) You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance

and Rules there under.

(5) In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay:

(a) Such interests as is payable for the period commencing immediately after

Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this Date: 27/10/2022. Recovery Officer

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)

R/o. House No.1A/180, NIT Faridabad (Haryana),

(Rupees Forty Four Lakh Fifty Seven Thousand Eight Hundred Forty Five Only) along with pendentellite and future interest @ 15% Simple Interest Yearly

with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (3) You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours

10:30 A.M. for further proceedings.

this notice of the certificate / execution proceedings.

(b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this

COURT

New Delhi

and other applicable regulations of the SEB (LODR) Regulations, 2015, notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of th Company is scheduled to be held on Thursday, 1 November, 2022 inter-alia to consider and approv the Un-Audited Financial Results of the Compan

NOTICE

The information contained in this notice is als available on the Company's corporate website (www.eiltd.info) and on the webste of BSE Limiter (www.bseindia.com). For EWA INDIA LTD. Date: 01.11.2022 Place: Kanpur (Namita Sabharwal) Company Secretary & Complexor Officer

for the quarter and half year ended 30" Septembe

M.K. EXIM (INDIA) LIMITED ed Office: G1/150, Garment Zone, E.PJ.P. Sitapu Tonk Road, Jaipur -302022, Rajasthan Phone: 0141- 3837501, Fax: +91-141-3937502 E-mail:mkexim@gmail.com, info@mkexim.com Web-Site: www.mkexim.com Notice for board meeing

NOTICE is hereby given, Pursuant

regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 201: (LODR), that a meeting of the board directors of M.K. EXIM (INDIA) LIMITED scheduled to be held on Wednesday, 09th November, 2022 at Unit No 235, 5B-Sanjar Building, Mittal Industrial Estate, Mumba Maharashtra, 400052, to inter alia, to consider and approve the Un-audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30 2022 and other matters as per agenda. The above can be accessed at the Company's website www.mkexim.com as well as the BSE website www.bseindia.com For M.K.Exim (India) Limited

Compliance Officer "Form No. INC-26" (Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement to be published in the newspaper for

shifting of registered office of the company

Prakriti Sethi

Company Secretary

Date: 29.10.2022

from one state to another BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT (REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION) in the matter of sub-section(4) of section 13. Companies Act, 2013, and clause (a) of sub-rule(5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014.

In the matter of Upright HC Solutions Private Limited having its registered office at K 258/635,636, Lane 3.

First Floor, Westend Marg, near Saket Metro Station, Saidulajab, New Delhi-110030.

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Governmentunder section 13 of the Companies Act. 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meetingheld on 30" September, 2022 to enable the company to shift its Registered Office from "State of NCT of Delhi" to "State of Haryana'. Any person whose interest is likely to be affected by

the proposed shift of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below K 258/635,636, Lane 3, First Floor, Westend Marg. Near Saket Metro Station, Saidulajab New Delhi

110030. For & on behalf of the applicant Upright HC Solution Pvt. Ltd. TRIPTI DIUNDI (Director) DIN: 08172080 Date: 02/11/2022

Place: New Delhi

Form No. INC-26 (Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)

Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi the matter of sub-section (4) of Section 13 Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of

SANSKRITI INSTITUTIONS (CIN: U80900DL2011NPL228225) having its Registered Office at A-6, FLAT NO. 6 NARAINA VIHAR, NEW DELHI-110028 .Applicant Company / Petitioner NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make

application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 24th August, 2022 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of State of Uttar Pradesh".

Any person whose interest is likely to be

affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen (14) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Compan

at its Registered Office at the address

Whilst care is taken prior to

NEW DELHI-110028 SANSKRITHINSTITUTIONS

A-6, FLAT NO. 6 NARAINA VIHAR,

mentioned below:-

Date: 01.11.2022

Place: New Delhi "IMPORTANT"

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Regd. Office: C-37, Panki Industrial Area, P.B. Udyng Nagar, Kanpur-ZI882Z, Tel: +91-512-2691218-11 Websile: www.eitld.into, E-Mail: emaindia.cs@graal.com, CIN - L27201UP1971PLC003408

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower, Guarantor and the public in general that in compliance of the order dated

Date: October 31, 2022 Sd/-**Authorised Officer** Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited (Acting in its capacity as trustee of EARC Trust SC-30)

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER- I/II DEBTS RECOVERY TRIBUNAL PUNE

By All Premissible Mode

Versus

Whereas (C.D.) M/S. PARASRAMPURIA SYNTHETICS LTD. have failed to pay the sum of Rs. the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II, Delhi and transferred to this Tribunal.

until further order of the undersigned from transferring or charging the under mentioned

(S. J. Satohai) Recovery Officer-II

FORM NO.14 [See Regulation 33(2)]

27.10.2022

Also At: House No. 1A-107, First Floor, NIT Faridabad-121001 (Harvana). Also At: H. No.1A-107, First Floor, NIT, Faridabad, Haryana-121001. (CD3) MRS. NEHA KOHLI W/OSH. PARDEEP KOHLI

Chandigarh (DRT 2) in OA / 1769 / 2018 an amount of Rs.44,57,845/-

assets on or before the next date of hearing. (4) You are hereby ordered to appear before the undersigned on 29/11/2022 at

notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.

financialen, epam.in

Place: Delhi

Date: 02-11-2022

Date: 02-12-2022 next date, purpose of case, orders nad judgments as well as other case information is available on

CNR NO: PBLD03-036212-2019

03. Rajasree Banerjee director of m/s rajprotim agencies pvt ltd 49-89 prince golam mohammad shah road, NR BD memorial school 2nd floor,

kolkatta700033 west bengal Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service, hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 02-12-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&dist

Ludhiana Date: 02-12-2022 next date, purpose of case, orders nad judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd M/s Rajprotim Agencies Pvt Ltd CNR NO: PBLD03-035816-2019

Ajinkya Arjun Choudhari Publication Issued To: M/s Rajprotim Agencies CNR NO: PBLD03-035824-2019 Pvt ltd address- through its directors rajasree Publication Issued To: Ajinkya Arjun banerjee and managing director partha protim Choudhari Address- R/o H, No 125/4 banerjee 49-89 prince golam mohammad shah Near Everest Pa Dist, Pune road, near b.d memorial school 2nd floor, kolkata Maharashtra 02. Arjun Namdev Chaudhari Resident House No 125/4 west bengal 02 Partha Protim Banerjee managing director of m/s rajprotim agencies pvt Near Everest Pa Company Distt Pune 412210 Maharashtra Itd 49-89 prince golam mohammad shah road. near b.d memorial school 2nd floor kolkata west bengal 03. Rajasree Banerjee director of m/s rajprotim agencies pvt ltd 49-89 prince golam

JMIC Ludhiana

27.10.2022

Ludhiana

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 02-12-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_ notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

CHIMIER COURS: TURNERIE

next date, purpose of case, orders and judgments

as well as other case information is available on

http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Kotak Mahindra Bank Ltd

Date: 02-12-2022

Ludhiana next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd Akbar Anwar Khan CNR NO: PBLD03-035817-2019 Publication Issued To: Akbar Anwar Khan

Address- Prop/auth Sign. Of M/s A One style in furniture sr no 56 2 shivnerinagar lane no 15 kondhwa opp, hanuman mandir pune maharashtra 02. m/s a one style in furniture through its prop sign akbar anwar khan sr no 56 2 shivneri nagar lane no 15 kondhwa opp hanuman mandir pune 411040 maharashtra Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 02-12-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, n case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs= district_notice&district=ludhiana

यूनियन बैंक 🕖 Union Bank Anales Compresson

4/14ए, आसफ अली रोड, दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेत) त्यकि, अधोहस्ताक्षरी ने विलीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निमांण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आसफ अली रोड** दिल्ली का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के नियम 3 के साथ पठित चारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार श्री आज़ाद और श्रीमती सीमा को एक मांग सूचना दिनांक 08.08.2022 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रू 28,16,051.77 (रु. अद्वाईस लाख सोलह हजार इक्यावन और पैसे सतहत्तर मात्र) उक्त खुधना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि अबोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित प्रवर्तन के निवम 8 साथ रिवत अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक 31.10.2022 को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता तथा जनसाधारण को एतदहारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन--देन यूनियन वैंक ऑफ इंडिया, आसफ अली रोड दिल्ली के प्रभार वास्ते राशि क 26,75,680.47 (रू. छब्बीस लाख पिवहत्तर हजार छः सौ अस्सी और पैसे सैतालीस मात्र) और मविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की और आकर्षित किया जाता है।

अचल / बंधक संपत्ति(याँ) का विवरण सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति नं, 57 और 58, सम्पूर्ण द्वितीय तल, ब्लॉक -ए, पॉकेट-2, सैक्टर-11, रोहिणी, दिल्ली में स्थित, चौहदी : (सम्पत्ति नं. 57 हेत्) उत्तर में प्रवेश, दक्षिण में – सर्विस लेन, पूरब में – प्लॉट नं. 56, पश्चिम में – प्लॉट नं. 58

(सम्पत्ति नं. 58 हेतु) उत्तर में — प्रवेश, दक्षिण में — सर्विस लेन, पुरब में — प्लॉट नं. 57, पश्चिम में - प्लॉट गं. 59 दिनांकः ३१.१०,२०२२, स्थानः दिल्ली

प्राधिकत अधिकारी, यनियन बैंक ऑफ इंडिया

उपस्थिति के लिए सार्वजनिक सूचना ऋग वस्ता आधकरण-1, मुम्ब के समक्ष 2022 की अन्तरिय आवेदन सं. 2015 की वसूली कार्यवाही सं. 16 मूल आवेदन सं. 2001 के 677 स्ट्रैस्ड एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फण्ड आवेदक

उषा इस्पात लिमिटेड एवं अन्य 1. विनव कुलवन्त सव

... प्रतिपादी सं. ३ 2. अनिल कुलवन्त राय प्लॉट नं. 58 एवं 63. ब्लॉक बी-II, द मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रिक्ल एस्टेट, पुल पेहलादपुर ताजपुर, चदरपुर, नई दिल्ली-110044

मेरे मुवविकलों के निर्देश पर, उपरोक्त नाम के आवेदक ने आपके खिलाफ दाबर संपत्तियों को कुकीं और प्रकटीकरण के लिए अंतरिम आवेदन दायर किया है। इससे पहले हमने आपके उपरोक्त पते पर सुनवाई की नोटिस देने का प्रयास किया था। हालाँकि, आप उक्त पते पर नहीं मिले। ऐसे में मुझे यह नोटिस प्रकाशित करना होगा। ध्यान दें कि मामला विद्यान वसुली अधिकारी, डीआरटी-I, मुंबई के समक्ष 12 दिसंबर, 2022 को दोपहर 02.30

बजे सुनवाई के लिए सुचीबद्ध है और आप अपनी उच्छानुसार वहाँ उपस्थित रह सकते हैं। आपका अपना

(सुनील एम, कदम) अपीलकर्ता के अधिवक्ता कार्यालय संख्या 27/28, नफीस चैंबर,

ऋण वस्ली न्यायाधिकरण चंडीगढ (डीआरटी 2) कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

APRIGLOBAL पंजीकृत एवं कार्यात्रय : 502, टॉवर-ए, पॅनिनमूला बिजिनेस पार्क, नेनापीन बापत मार्ग, लोजार परेल, मुन्बई-400013 सर्किल कार्यालय : केग्री ग्लोबल कैपिटल लिब्टिड, असे, दूमरी मॉजल, पूमा रोड, राजेन्द प्लेम, नई दिल्ली-150060 CAPITAL LIMITED

頭. 杖.	1. कर्जदान् रों) का नाम 2. बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण	 ईं-नीलामी की तिथि एवं समय ईएमडी जमा करने की अन्तिम 	 आरक्षित मृल्य सम्पत्ति की ईएमडी
1. 1 (2 3 L L	मैसर्स बालाजी सब्जी की दुकान ('कर्जदार') श्री विनय कुमार श्रीमती सविता देवी (सह-कर्जदार) ऋण खाता संख्या LNCGCAZDTL0000004605,	ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान निजी नंबर 02, छत के अधिकार के बिना, माप 17.65 वर्ग मीटर संपत्ति नगर निगम संख्या 1202 का हिस्सा, वार्ड नंबर आठ, इमली मोहल्ला, कुचा पाती राम, सीता राम बाजार, दिल्ली-110006। सीमाएँ: पूर्व: कॉमन वॉल और अन्य दुकान, पश्चिम: कॉमन वॉल और	तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय 1. ई-नीलामी की तिथि: 19.11.2022 (3:00 वजे अप. से 4:00 वजे अप.)	3. वर्धित मूल्य आरक्षित मूल्य: रु. 31,20,000/- (रुपये इकतीस लाख बीस हजार मात्र) जमा धरोहर राशि: रु. 3,12,000/- (रुपये तीन लाख बारह हजार मात्र)
	LNCGCPURTL0000009200 और LNBLAZD000051846 रुपये 31,27,420/- (रुपये इकतीस लाख सत्ताइँस हजार चार सौ चीस मात्र) 28.10.2022 तक तथा लागू	अन्य दुकान, उत्तर :- मोहल्ला इमली दक्षिणः - कॉमन बॉल और संपत्ति का हिस्सा		वृद्धि मृल्य : रु. 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र)

विक्री के विस्तत नियम एवं शतों के लिए कपया केप्री ग्लीबल केपिटल लिमिटेड प्रतिभत लेनदार की वेबसाइट www.Capriglobal.in/auction/ में प्रावधानित लिंक का सन्दर्भ लें।

. ई-नीलामी बिक्री सुचना में सम्पत्ति/आस्तियों के विवरण (जैसे विस्तार तथा माप) प्रतिभृत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लिखे गये हैं और प्रतिभृत लेनदार किसी जुटि, गलत चयानी या विलोपन के लिए उत्तरदायी| नहीं होगा। वास्तविक विस्तार तथा माप में अन्तर हो सकता है।

3. प्रतिभत लेनदार हारा निर्गत ई-नीलामी विक्री सुचना अपनी संविदाएँ जमा करने हेतु जनसामान्य के लिए एक आमन्त्रण है और प्रतिभत लेनदार के पक्ष में कोई प्रतिवद्धता वा प्रतिनिधान नहीं नहीं निर्मित करती है और न करती हुई मानी जावेगी। इच्छुक संविदाकारों को अपनी संविदा/एँ जमा करने से पूर्व सम्पत्ति/आस्तियों के स्वामित्व तथा वर्तमान दशा एवं सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के विषय में अपना स्वतन्त्र पूछताछ/इय्

टाइगर मोबछल एप के माध्यम से संचालित की जायेगी जो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की सम्पर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था तथा समन्वयन करेंगे।

5. संविदाकार अपने मनचाहे स्थान से संविदा हेतु ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था संविदाकार को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभृत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क

समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, पॉवर फेल्योर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन बोली के लिए सम्भावित संविदाकार सेवा प्रदाता मैससं ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नं. 079-68136880/68136837).

श्री रामकुमार, मोबाइल र्न. 8000023297. ई-मेल : ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं। 7. ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक संविदाकार को अग्रिम रूप से अपना नाम https://sarfaesi.auctiontiger.net पर पंजीकृत कराना होगा और यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक

8. ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकार को आरक्षित मूल्य के 10% की प्रतिदेय ईएमडी जमा करनी होगी जो 18 नवम्बर, 2022 को या इससे पूर्व ''कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड'' के पक्ष में डिमाण्ड इाफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी है।

9. इच्छुक संविदाकार ईएमडी के प्रति डिमाण्ड ड्राफ्ट रेमिटेंस सहित विधियत भरे संविदा प्रपत्र (प्रारूप https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है) एक मुहरबन्द लिफाफे में अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल

कैपिटल लिमिटेड को सम्बोधित, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. १बी, दूसरी मॅजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005 के पास अधिकतम 18 नवम्बर, 2022 को 03.00 बजे अप. तक भेजने हैं। मुहरबन्द लिफाफे पर ''कर्जदार का (जैसा कपर उल्लिखित हैं) में ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने हेत संविदा'' लिखना होना चाहिए।

लेनदार के पास निर्दिष्ट ईएमडी जमा कर दी है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास करेंगे ताकि केवल वे ही संविदाकार ऑनलाइन इंटर-से बोली/नोलामी प्रक्रिया में ई-

नीलामी बिक्री सुचना में उल्लिखित तिथि एवं समय पर भाग ले सकें। 11. क्यालिफाइड सॅविटाकारों के मध्य इंटर-में बोली क्यालिफाइड सेविटाकारों हारा उच्चतम कोट की गयी बोली से पारम्थ होगी। इंटर-से बोली प्रक्रिया के दौरान "10" मिनट प्रत्येक का असीमित विस्तार समय होगा अर्थात

यदि बोली अन्तिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगायी जाती है तो ई-नीलामी बोली का अन्तिम समय प्रत्येक बार स्वतः ही 10 मिनट बढ़ नायेगा। 12. एक बार लगाई गयी बोली निरस्त नहीं होगी। संविदाकार को प्रदत्त यूजर आईडी से लगायी गयी कोली केवल उसी के हारा लगायी गयी मानी जायेगी।

13. ई-नीलामी प्रक्रिया बन्द होने के तुरन्त बाद उच्चतम संविदाकार ई-मेल हारा अधिकृत प्राधिकारी, कैपी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. 9बी, दूसरी मैजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005 तथा सेवा प्रदाता के पास ई-नौलामी प्रक्रिया में सफल संविदाकार घोषित होने के लिए अपने हारा कोट की गयी अन्तिम संविदा राशि की पृष्टि ई-मेल हारा करेगा।

14. सफल संविदाकार को अपने पक्ष में होने पर संविदा राशि का 25% (ईएमडी सहित) बिक्री के 24 घण्टे के भीतर जमा करना होगा तथा शेष 75% राशि कैपी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में डीडी/पे

ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक हार विक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। 15. सफल संविदाकार/नीलामी केता द्वारा निर्धारित समय में उपर्यक्त निर्दिष्ट राशियों का भगतान करने में चक करने पर विकी निरस्त कर दी जायेगी और पहले से जमा राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जायेगी और सम्पत्ति।

को पुनः बिक्री पर रखा जायेगा।

16. सफल संविदाकार के निवेदन पर अधिकत प्राधिकारी अपने विवेक से संविदा राष्ट्रि का शेष भाग जमा करने हेत लिखित में अधिक समय की स्वीकृति दे सकते हैं। 17. सफल संविदाकार बिक्री मुल्य का 1% टीडीएस (बिक्री कार्यवाहियों में से) अदा करेगा और अधिकृत प्राधिकारी के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करेगा तथा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने की तिथि से

15 कार्यकारी दिनों के भीतर अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर किसी अन्य विस्तारित तिथि तक ईएमडी समायोजित करने के पश्चात बिक्री मृत्य की सम्पूर्ण राशि (1% टीडीएस कटौती को घटाकर) जमा करनी होगी जिसमें असफल रहने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

समस्त विधिक बकावों पर विचार करते हुए तैयार की जायेंगी।

19. बिक्री प्रमाणपत्र सम्पूर्ण क्रय राशि/संविदा राशि जमा करने तथा सम्पूर्ण करों/प्रभारों के भूगतान के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक प्रमाण का उल्लेख करने के उपरान्त ही सफल संविदाकार के पक्ष में अधिकत प्राधिकारी द्वारा निर्गत

20. कन्वीएंस, स्टैम्प मुल्क, पंजीकरण प्रभार एवं अन्य आकस्मिक प्रभारों हेतु प्रयोज्य विधिक प्रभारों का वहन नीलामी क्रेता हारा किया जायेगा। 21. अधिकत प्राधिकारी बिना कोई कारण बताये ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया को स्थगित/निरस्त कर सकते हैं। यदि ई-नीलामी बिक्री निर्धारित तिथि के 15 दिनों से पूर्व किसी बाद की तिथि को स्थगित की जाती है तो इसे सेवा

प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। 22. अधिकत प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम, बाध्यकारी तथा प्रश्नचिहन रहित होगा।

23. संविदाएँ जमा करने वाले समस्त संविदाकारों के लिए माना जायेगा कि उन्होंने ई-नीलामी बिक्री के निगम एवं शती को पढ़ और समझ लिया है और वे उनसे सहमत है।

24. सम्पत्ति में पड़ी हुई चल वस्तुएं विक्री का हिस्सा नहीं हैं।

25, अधिक विवरण एवं पूछताछ के लिए सम्पर्क करें : अधिकृत प्राधिकारी, कैग्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, श्री सुशील गुप्ता, मोबाइल नं. 7400445137 तथा अन्य पूछताछ के लिए सुश्री कल्पना चेतनवाला-7738039346.

हेतु 15 (पन्द्रह) दिनों की सुचना भी है।

(इंटरनेट फेल्योर, पॉवर फेल्योर आदि) के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी विषम परिस्थिति से बचने के लिए संविदाकार समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ/विकल्प जैसे बैक-अप पॉवर सप्लाई तथा जो कुछ भी अन्य अपेक्षित हो, कर लें ताकि ये ऐसी विषम परिस्थिति से निपट सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। स्थान : गुरुग्राम तिथि : 02 नवम्बर, 2022

ऋण वसूली ट्रिब्यूनल—ा, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्टीट, नई दिल्ली-110001 ओए. नं. 789/2020 एचडीएकसी बैंक

आशीय कुमार व अन्य

आशीष कुमार पुत्र श्री मनोज कुमार, निवासी 217, पॉकंट-3,सेक्टर-25, गेहिणी,सेक्टर-13, उत्तर पश्चिम दिल्ली दिल्ली—110085, **यहाँ भी** :— आशीष कुमार पुत्र श्री मनोज कुमार प्रो. एकं इंटरप्राइजेज 77, पॉकंट—1 सेक्टर-24 रोशिणी, दिल्ली-110085 प्रतिवादी-1 2 दिल्ली राज्य परिवहन विभाग अपने आयुक्त, परिवहन विभाग-एनसीटी दिल्ली सरकार, के मध्यम से 5/9 राजपर रोड सिविल लाइंस दिल्ली-110054 प्रतिवादी 2 यस बँक लिमिटेड, पंजीकृत पताः टॉवर, आईएकसी-2, 15वीं मंजिल, सेनापति बापट मार्ग, एलफिस्टन (पश्चिम), मुंबई महाराष्ट्र-400013, प्रतिवादी 3,

जबकि उपरोक्त नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध रु.36,07,235.76:-(छत्तीस लाख सात हजार दो सी पैतीस **रुपये और पचहत्तर रुपये मात्र)** की दस्ती के लिए मामला दर्ज किया है और जहां अधिकरण की संतुष्टि लिए यह दिखाया गया है कि सामान्य तरीके से आपकी संपर्क करना संभव नहीं है, इसलिए अट यह नोटिस आपको दिनांक 09.12.2022 को पूर्वीह 10.30 बजे, ले. रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हुए विज्ञापन द्वारा जारी किया गया है(अधिक जानकारी के लिए कृपया कीआरटी की वेबसाइट www.etribunal.gov.in, फोन नंबर 011-23748473 देखें)। ध्यान दें कि एल्लिखित दिन इस ट्रिब्यूनल के समझ जापकी उपरिवर्ति में चूक होने पर मामले की सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपरिवर्ति में मामल

चल रही महामारी की स्थिति के कारण सभी मानलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएनी और इस जरेश्य के लिए:- (i) सभी अधिवक्ता/वादीयण "सिरको वीश्रेक्स" एप्लिकेशन ध्सॉफ्टवेयर ठाउनलो करेंगे: (ii) रजिस्ट्रार/ वसूली अधिकारी-1/और रिकवरी अधिकारी-II द्वारा लिए जाने वाले मामलों की सुनवाई की अगली तारीख के लिए "मीटिंग आइंडी" और "पासवर्ड"डीआरटी आधिकारिक पोर्टल यानी "d02rt.gov.in" पर सार्वजनिक सूचना शीर्ष के अंतर्गत अगली तारीख से एक दिन पहले उपलब्ध होंगे। (iii) किसी भी आपात स्थिति में अधिवक्ता / वादी संबंधित अधिकारी से फोन नंबर 011-23748473 पर संपर्क कर सकते हैं। 18 अगस्त 2022 के दिन मेरे हाथ और ट्रिब्यूनल की मुहर के तहत आदेश। प्रतिवादी विस्तृत पछताछ के लिए नीचे उल्लेखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, श्री अमित के डार, ले. रजिस्ट्रार, ठीआरटी—| ,नई दिल्ली, दूरमाथ: 011—23748473, ईमेल्ड drt1delhi-dfs@nic.in

इस ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार, कृते रजिस्ट्रार

प्रपत्र सं. 16

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (CIN: L92100DL1994PLC059093)

पंजीकृत कार्यालय: 37, दूसरा तल, रानी झांसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज दिल्ली -110055 ई-मेल आईडी: cbnl.delhi@gmail.com, वेबसाईट: www.sadhnabroadcost.com, 30 सितम्बर,2022 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडएलॉन अनेकेश्वित वितीय परिणामों का विवरण भाग । (रु. लाख में)

विधरण (बीचे टिप्पणी देखें)	समाप्त तिमाही	समाप्त पूर्व तिमाही	पूर्व वर्ष में समाप्त तत्स्वानीय	तिथि तक वर्ष
(34,034,43)	(30.9.2022) (अनेकेक्षित)	(30.06.2022)	3 महीने (30.9.2021) (अनंकेक्षित)	के आंकडे (30.09.2022) (अनंकेक्षित)
। परिचालनों से कुल आय	231.29	375.67	628.18	606.96
्र अवधि के लिए सुद्ध लाग/ (झनि) (कर विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदौं से पूर्व*)	-49.15	46.83	15.75	-2.32
कर से पूर्व अवधि के लिए गुद्ध लाभ्य (शिन) (विशिष्ट एवं/अध्या असाधारण गर्दी के बाद*)	-49.15	46.83	62.87	-2.32
. कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लग्ग (स्ति) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण पदी के बाद*)	-53.80	35.23	44.13	-18.58
अविधि हेतु कुल व्यापक आय (अविधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद रो शामिल)	-53.80	35.23	44.13	-18,58
इक्विटी शेयर पूंजी	1,002.65	1,002.65	1,002.69	1,002.65
आरमित (पूर्व व्यव के अंकेक्षित तुलनपत्र के अनुसार पूनर्मृल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	0.00	0.00	0.00	0.00
. आय प्रति शेवर (रु. १०१- प्रति का) (जारी तथा अयरुद्ध प्रचालनों के लिए)				
मूल	(0.54)	0.35	0.44	(0.19)
2. तरल	(0.54)	0.35	0.44	(0.19)

 उपरोक्त विवरण सेबी (सूर्चीयन दावित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टाक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमारी विश्रीय परिणामी का संपूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमारी तथा वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज तथा सुचीबद्ध सत्ता की वेबसाईट पर उपलब्ध है। 2. लेखा नीतियों में परिवर्तन के कारण मुद्ध लाभ/ डानि. कुल व्यापक आय अथवा किसी अन्य संबंधित वित्तीय मदौं

पर प्रभाव को फुट नीट द्वारा उद्घाटित किया जाएगा। 3. # जो भी लागू हो, इंड-एएस नियमावली/एएस नियमावली के अनुसार विशिष्ट एवं/अथवा असाधरण मदी को लाभ तथा हानि के चिवरण में समायोजित किया गया है।

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिए हस्ताः/- नाम: तेजिन्दर कीर

परनामः प्रबंध निरोणक DIN: 0679957

APRIGLOBAL CAPITAL LIMITED

यह युद्धिपत्र 20 अक्टूबर, 2022 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित सरकेशी अधिनियम की धारा (नियम 8/6) और 9(1 के तारत प्रकाशित अवल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस के संदर्भ में है। 27 में गलती से विच्या गया : कृपया ध्वान वें कि संपत्ति संख्या । (अहम खाता संख्य LNCGCKKDTL0000004418) के लिए बीमती माला शर्मा ने जीजारदी-2 जो समक्ष तेयरी मं 827/2020 के माध्य के प्रतिभृतिकरण आवेदन दागर किया है जिसमें उन्होंने खुद को छत के अधिकार के लाथ दूसरी और तीसरी मजित का मालिक होने का दावा कर रही है तथा एक श्रीमती रमा शर्मा ने भी श्रीआरटी-2 वे समक्ष एसए में, 48/2021 नक्ष्यम से प्रतिभृतिकरण आवेदन दायर किया है जिसमें उन्तोंने खुद को भूतल का मालिक होने का दावा कर रही है कृपया 27 में निम्न रूप में पढ़ें कृपया ध्यान दें कि संपत्ति संख्या 1 (ऋण खाता संख्य LNCGCKKDTL0000004418) के लिए श्रीमती माला शर्मा ने कीआरटी--2 के समझ केयरी ने 827/2020 के माध्य से प्रतिनृतिकरण आवेदन दायर किया है जिसमें उन्होंने खुद को छत के अधिकार के साथ पहली और दूसरी मीजिल का मालिक डोने का दावा कर रही है तथा एक श्रीमती रमा शर्मा ने भी दीआरटी-2 के समक्ष एसए नं 46/2021 व गाध्यम से प्रतिभृतिकरण आयेदन दायर किया है जिसमें उन्होंने खुद की पूतल का मालिक होने का दाया कर रही है परिवर्तन को पिछले प्रकाशन के माग और अंश के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। स्थान दिल्ली/एनसीआर हस्ता / - अधिकृत अधिकारी

दिनांक: 02-11-2022 कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेर

[विनियम 34(3) देखें

सभी अनमत्व माध्यमों से कार्यालय वसूली अधिकारी-I/II

ऋण वसुली अधिकरण पुणे

यनिट नं, 307 से 310, 3सरा तल, ककड़े बिज ऑडकन बिल्डिंग, शिवाजी नगर, पण-411016 टीआस्मी/303/2017 ऋण वसुली और ऋणशोधन अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम,

दूसरी अनुसूची के नियम 48 के तहत अचल संपत्ति की कुर्की का वारंट

एएसआरईसी (इंडिया) लि.

मैसर्स परसरामपुरिया सिंथेटिक्स लि. एवं अन्य

सीडी 1. मैसर्स परसरामपूरिया सिथेटिक्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः एस.पी. 145, डी-1, रीकी औद्योगिक क्षेत्र, भिवाही, जिला अलवर (राजस्थान) कॉपोरेंट कार्यालय: 103, सूर्य हवेली, 1

कौशल्या पार्क, हीज खास, नई दिल्ली- 110 016 सीडी 2. श्री रतन लाल परसरामपुरिया, 141, रीवा अपार्टमेंट, भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई- 400 026

सीढी 3. श्री ओम प्रकाश परसरामपुरिया, एस-80, पंचशील पार्क, नई दिल्ली- 110 017

सीडी 4. श्री आलोक परसरामपुरिया, एस-80, पंचशील पार्क, नई दिल्ली- 110 017

जबिक (सी.डी.) मैससं परासरामपुरिया सिथेटिक्स लि. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसुली अधिकरण-11 दिल्ली हारा तैयार किए गए प्रमागपत्र संख्या आरसी/303/2017 के संबंध में आपके हारा देव रु. 44,73,20,254/- (रुपये चौवालीस करोड़ तिहत्तर लाख बीस हजार दो साँ चौवन मात्र) की राशि का

धुगतान करने में विफल रहे हैं और इस ट्रिब्युनल को स्थानांतरित कर दिया गया। जबिक (सी.डी.) मैसर्स परसरामपुरिया सिथेटिक्स लि. पीठासीन अधिकारी, ऋण वस्तुली अधिकरण-II दिल्ली हारा आदेश दिया गया था, जिन्होंने प्रमाण पत्र धारक बैंक को भूगतान करने के लिए ओए/60/2006 में शुन्य का वसुली प्रमाणपत्र जारी किया था और जबकि राशि का भूगतान नहीं किया गया है।

2. यह आदेश दिया जाता है कि आप प्रमाणपत्र देनदार, जैसा कि निर्धारित किया गया है, को इसके हार अधोहस्ताक्षरी के अगले आदेश तक, नीचे उल्लिखन संपत्ति को किसी भी तरह से स्थानांतरित करने या चार्ज करने से निषद्ध और प्रतिबंधित किया जाता है, और यह कि सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस तरह के हस्तांतरण या प्रभार के तहत कोई लाभ लेने से प्रतिबंधित किया जाता है। 3. बिक्री की उद्योषणा की शर्तों को निर्धारित करने के लिए निर्धारित तिथि का नोटिस लेने के लिए आपकों

दिनांक 20.12.2022 को पूर्वाह 10:30 बजे चसुली अधिकारी, ऋग चसली अधिकरण, पूर्ण के समक्ष उपस्थित

सीडी-1 की सम्पत्ति का विवरण

ग्राम बेलपाडा, कवाडे एवं सोनकोटा, अलीबाग, राजगढ़ जिला क.सं. हेक्ट्रेयर क्र.सं. हेक्टेवर मैसर्स परसरामपूरिय सोनकाटा 41/2 0.58.9 सिंघेटिका लिमिटेड सीनकाटा 37/313 0.28.3 सोनकाटा 21/1/ 0.27. फवाडे 37/1 1.01.0 72/2 0.30.6 16/9 0.04.0 कवाड सोनकाटा 9/6 0.26.9 108 0.51.0 यलपाड़ा 110 0.42.0 सोनवरहा 37/2% 0.22.5 चेलपाड़ा सोनकाटा 18/2 0.44.5 मेरे हस्ताक्षर तथा इस अधिकरण की महर सहित दिनोंक : 06.10.2022 की

(एस.जे. सतभाई) वसूली अधिकारी-1 प्रभारी, वसूली अधिकारी-1, ऋण वसूली अधिकरण, पुर्व

1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिभिटेड पंजीकर एवं कॉर्जिस्ट कर्वालय : 502, टॉवर-ए, पेनिस्सला विजियेश पार्ड, सेनावरि वाफा मार्च, लीकर परेल, मार्चाई-400013

सर्वितन करबोलय । नेजी ग्लीयल फेपिटल लिपिटेड, दूधरी मॉनल, उबी, पूछा छेड, रानेन्द्र प्लेश, नई दिल्ली-110005 परिशिष्ट-IV-ए [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

बंधक सम्पनि का विवरण

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेत् विक्रय सुचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्की हेतु विक्रय सचना। एतहारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिस पर कैप्री म्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्रतिभृत लेनदार हारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार से केप्री म्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्रतिभृत लेनदार के नीचे वर्णित राशि की वसूली हेतु निम्नलिखित तिथियों पर "जहाँ है जैसे है", "जो है यहीं है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि तथा सम्पत्ति का विवरण नीचे वर्णित है।

	स.	2. बकावा साञ		2. ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि	2. सम्यान को इएमडी
3	Tage 1	श्री समे वादय ('कर्जदार') श्री सहल यादय (सह-कर्जदार) श्री सहल यादय (सह-कर्जदार) श्रण खाता संख्या LNMEMAY000042954 श्रीर LNMEMAY000043999 तिथि 28.10.2022 तक लागृ भावी ब्याज के साथ ह. 25,24,470/- (रुपये पच्चीस लाख वीबीस हजार चार सौ सतर मात्र)।	श्वसरा नंबर ६४, नली नंबर ३, ज्ञान अकवरपुर बेहरामपुर, परगना लोनी, वहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। सीमाएँ निम्नानुसार हैं:- पूर्व:- सड़क, पश्चिम:- अन्य की संपत्ति, उत्तर:- सड़क, दक्षिण:- सड़क	समय	यधित मृल्य : इ. 1,40,00,000/- (रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र) जमा धरोहर राशि इ. : 14,00,000/- (रुपये चीदह लाख मात्र) वृद्धि राशि : इ. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)
	2.	श्री श्याम सुंदर ('कर्जदार') श्रीमती दिव्या रानी (सह-कर्जदार) ऋण खाता संख्या LNCGCPURTL0000008934	संपत्ति क्षेत्र माप 74 वर्ग गज, खसरा नं. 34 में से, किला नं. 7/1/3, अब मकान नंबर 8772, जवाहर कॉलोनी, मीजा सरन, फरोदाबाद, हरियाणा। सोमाएँ : पूर्वः श्रीमती गप्पन के स्वामित्व वाला प्लॉट, पश्चिमः श्रीमती झजन के स्वामित्व वाला प्लॉट, उत्तरः सड़क, दक्षिणः अन्य भृखंड	(3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच)	आरक्षित मृत्य : रु. 18,45,000/- (रुपये अटारह लाख पैतालीस हजार मात्र) जमा थरोहर राशि रु. : 1,84,500/- (रुपये एक लाख चीरासी हजार पांच सौ मात्र) चृद्धि राशि : रु. 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र)
	3.	श्री संजय कपूर ('कजंदार') श्रीमती अनामिका कपूर मेसर्स एयरवॉयस एविएलन प्राइवेट लिमिटेड सेसर्स सिद्धि विनायक इंफ्रास्ट्रक्रर (सह-कर्जदार) ऋण खाता संख्या LNCGCDELTL0000005113 तिथि 28.10.2022 तक रू. 2,37,21,309/- (रुपये दो करोड़ सैतीस लाख इक्कीस हजार तीन सी नौ मात्र) तथा भावी ब्याज	तीसरी मंत्रिल का पिछला हिस्सा, तीसरी मंत्रिल के पिछले हिस्से की छत के साथ, प्लॉट नंबर एस-569, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली में बने छत पर एक सबेंट क्वार्टर महित।	(3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के	आरक्षित मृल्य : रु. 1,85,00,000/- (रुपये एक करोड़ पिचासी लाख मात्र) जमा धरोडर राशि रु. : 18,50,000/- (रुपये अदारह लाख पचास हजार मात्र) यृद्धि राशि : रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत नियम एवं ऋते के लिए कृपया कैपी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रतिभृत लेनदार की चेबसाइट www.Capriglobal.in/auction/ में प्रावधानित लिंक का सन्दर्भ लें।

ऑनलाइन इं-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्ते

1. सम्पत्ति की बिक्की "जहाँ है जैसे हैं, जो है वहीं है तथा उपचार रहित आधार" पर की जा रही है। क्योंकि बिक्की बिना किसी वारंटी तथा इंडेम्निटी के है। 2. ई-नीलामी बिक्री सचना में सम्पत्ति/आस्तियों के विवरण (जैसे विस्तार तथा माप) प्रतिभत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लिखे गये हैं और प्रतिभृत लेनदार किसी त्रृटि, गलत बयानी या विलोपन के लिए उत्तरदायों

नहीं होगा। वास्तविक विस्तार तथा माप में अन्तर हो सकता है। 3. प्रतिभत लेनदार द्वारा निर्वत ई-नीलामी विक्री सचना अपनी संविदाएँ जमा करने हेत जनसामान्य के लिए एक आमन्त्रण है और प्रतिभत लेनदार के पक्ष में कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधान नहीं नहीं निर्मित करती है और ब

करती हुई मानी जायेगी। इच्छक संविदाकारों की अपनी संविदा/एँ जमा करने से पूर्व सम्पत्ति/आस्तियों के स्वामित्व तथा वर्तमान दशा एवं सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के विषय में अपना स्वतन्त्र पूछताछ/इयू डिलिजेंस संचालित करने की सलाह दो जाती है। 4. नीलामी केवल वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" में अथवा सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीन लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा प्रावधानित ऑक्शन टाइगर मोबाइल एप के माध्यम से संचालित की जायेगी जो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था तथा समन्वयन करेंगे।

5. संविदाकार अपने मनचाहे स्थान से संविदा हेतु ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टियटी की व्यवस्था संविदाकार को स्वयं सनिश्चित करनी होगी। प्रतिभत लेनदार सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टियटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, पॉवर फेल्बोर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

6. विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन बोली के लिए सम्भावित संविदाकार सेवा प्रदाता मैंसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नं, 079-61200531/576/596/559/598/587/594), श्री रामकुमार, मोबाइल नें. 8000023297. ई-मेल : ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।

7. ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक संविदाकार को अग्रिम रूप से अपना नाम https://sarfaesi.auctiontiger.net पर पंजीकृत कराना होगा और युजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक संविदाकारों को सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त होने के तुरन्त बाद अपना पासवर्ड बदल लेने की सलाह दी जाती है।

8. ई-नीलामी में भाग लेने हेत इच्छक संविदाकार को आरक्षित मूल्य के 10% की प्रतिदेय ईएमडी जमा करनी होगी जो 5 दिसम्बर, 2022 को या इससे पूर्व "कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड" के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी है।

9. इच्छुक संविदाकार ईएमडी के प्रति डिमाण्ड ड्राफ्ट रेमिटेंस सहित विधिवत भरे संविदा प्रपत्र (प्रारूप https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है) एक मुहरबन्द लिफाफे में अधिकृत प्राधिकारी, कैग्री ग्लोबल

कैपिटल लिमिटेड को सम्बोधित, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. उबी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005 के पास अधिकतम 5 दिसम्बर, 2022 को 03.00 बने अप. रुक भेजने हैं। मुहस्बन्द लिफाफे पर "कर्नदार्श का नाम'' की सम्पत्ति हेत ऋण खाता सं (जैसा ऊपर उल्लिखित हैं) में ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने हेतु संविदा'' लिखना होना चाहिए।

लेनदार के पास निर्दिष्ट ईएमडी जमा कर दी हैं) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मैंसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिम्स्टिंड के पास करेंगे ताकि केवल वे ही संविदाकार ऑनलाइन इंटर-से बीली/नीलामी प्रक्रिया में ई-नीलामी बिक्री सुचना में उल्लिखित तिथि एवं समय पर भाग ले सकें।

11. क्वालिफाइड संविदाकारों के मध्य इंटर-से बोली क्वालिफाइड संविदाकारों द्वारा उच्चतम कोट की गयी बोली से प्रारम्भ होगी। इंटर-से बोली प्रक्रिया के दौरान "10" मिनट प्रत्येक का असीमित विस्तार समय होगा अर्थात

वदि बोली अन्तिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगायी जाती है तो ई-नीलामी बोली का अन्तिम समय प्रत्येक बार स्वतः ही 10 मिनट बढ़ जायेगा।

12. एक बार लगाई गर्या बोली निरस्त नहीं होगी। संविदाकार को प्रदत्त युजर आईडी से लगायी गयी बोली केवल उसी के द्वारा लगायी गयी मानी जायेगी। 13. ई-नीलामी प्रक्रिया बन्द होने के तुरन्त बाद उच्चतम संविदाकार ई-मेल हारा अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. 3बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005 तथा

सेवा प्रदाता के पास ई-नीलामी प्रक्रिया में सफल संविदाकार घोषित होने के लिए अपने हारा कोट की गयी अन्तिम संविदा राशि की पुष्टि ई-मेल हारा करेगा।

ऑडर/एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक द्वार बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।

15. सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय में उपर्युक्त निर्दिष्ट राशियों का भगतान करने में चुक करने पर विक्री निरस्त कर दी जयेगी और पहले से जमा सशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पुनः बिक्री पर रखा जायेगा।

16. सफल संविदाकार के निवेदन पर अधिकृत प्राधिकारी अपने विवेक से संविदा राशि का शेष भाग जमा करने हेतु लिखित में अधिक समय की स्वीकृति दे सकते हैं।

17. सफल संविदाकार बिक्री मूल्य का 1% टीडीएस (बिक्री कार्यवाहियों में से) अदा करेगा और अधिकृत प्राधिकारी के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करेगा तथा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने की तिथि से 15 कार्यकारी दिनों के भीतर अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर किसी अन्य विस्तारित तिथि तक ईएमडी समायोजित करने के पश्चात बिक्री मृल्य की सम्पूर्ण राशि (1% टीडीएस कटीती की घटाकर)

सम्बन्धित समस्त विधिक बकायों पर विचार करते हुए तैयार की जायेंगी।

19. बिक्री प्रमाणपत्र सम्पूर्ण क्रय राशि/संविदा राशि जमा करने तथा सम्पूर्ण करों/प्रभारों के भूगतान के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक प्रमाण का उल्लेख करने के उपरान्त ही सफल संविदाकार के पक्ष में अधिकृत प्राधिकारी हारा निर्गत

22. अधिकत प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम, बाध्यकारी तथा प्रश्नचित्न रहित होगा। 23. संविदाएँ जमा करने वाले समस्त संविदाकारों के लिए माना जायेगा कि उन्होंने ई-जीलामी बिक्री के नियम एवं फर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वे उनसे सहमत हैं।

24. सम्पत्ति में पड़ी हुई चल चस्तुएं बिक्री का हिस्सा नहीं हैं।

25. अधिक विवरण एवं पृछताछ के लिए सम्पर्क करें : अधिकत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, बी सशील गप्ता, मोबाइल नं, 7400445137 तथा अन्य पृछताछ के लिए सब्री कल्पना चेतनवाला-7738039346. 26. यह प्रकाशन उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्की आयोजित होने के विषय में प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अनुसार कथित उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/जमानतियाँ हेत 30 (तीस) दिनों की सचना भी है।

स्थान : दिल्ली/एनसीआर तिथि : 02 नवम्बर 2021 ह./- (अधिकृत प्राधिकारी) कैग्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

www.readwhere.com

http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd M/s Rajprotim Agencies Pvt Ltd

Publication Issued To: M/s Rajprotim Agencies Pvt ltd address- through its directors rajasree banerjee and managing director partha protim banerjee 49-89 prince golam mohammad shah road, nr BD memorial school 2nd floor, kolkata 02 Partha Protim Banerjee managing director of m/s rajprotim agencies pvt ltd 49-89 prince golam mohammad shah road, nr bd memorial school 2nd floor kolkata

mohammad shah road, near b.d memorial school 2nd floor, kolkatta west bengal Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service, hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 02-12-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as

> per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&dist JMIC Ludhiana

कार्यालय—वसूली अधिकारी 1/11

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) माग नाटिस

ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की घारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस

आरसी/161/2020 फेडरल बैंक

पीएन इलेक्ट्रॉनिक

सेवा में, (सीडी 1) पी.एन. इलेक्ट्रॉनिक

इसके अलावा यहाँ भी : मेसर्स पी. एन. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालयः एवं. मं. १ए-१०७, प्रथम तल, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121001

इसके अलावा यहाँ भी: हाउस नं. 1 ए 107 पहली मंजिल एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121001 (सीढी 2) तेजिंदर सिंह पुत्र श्री तारा सिंह निवासी : हाउस नं. ५एफ/27ए, एनआईटी फरीदाबाद, (हरियाणा) इसके अलावाः हाउस नं. 1 ए-107, पहली मंजिल, एनआईटी फरीदाबाद-121001 (हरियाणा)

इसके अलावा: एव नं. 1 ए-107, पहली मंजिल, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 (सीडी 3) श्रीमती नेहा कोहली पत्नी प्रदीप कोहली निवासी : हाउस नं. 1ए /180, एनआईटी फरीदाबाद (हरियाणा) इसके अलावा: हाउस नं. 1 ए-107, पहली मंजिल, एनआईटी फरीदाबाद-121001 (हरियाणा)

इसके अलावाः १ नं. १ए-१०७ प्रथम तल, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-१२१००१ यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण बसूली न्यायाधिकरण चडीगढ़ (डीआरटी 2) द्वारा ओए धार69ध्2018 में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार 🛮 रू.44,57,845६(चीवालीस लाख सत्तावन हजार आठ सी पैतालीस रुपये मात्र) की राशि के साथ प्राभावी तिथि 10.07.2018 से वसुली तक पेंडेंटलाइट और भविष्य व्याज / 15: साधारण व्याज वार्षिक साधारण व्याज (वार्षिक) और रु.०

(केवल) की लागत आपके खिलाफ (संयुक्त रूप से और अलग-अलगध्युरी तरह संध्सीमित) देय हो गई है। (2) आपको नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भूगतान करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर उक्त वसली बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार की जाएगी। (3) आपको एतदवारा आदेश दिया जाता है कि आप शपथ पत्र पर सुनवाई की अगली

तारीख को या उससे पहले अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करें

27.10.2022

(4) आपको एतद्दवारा आगे की कार्यवाही के लिए 29.11.2022 को पूर्वाह 10:30 बजे अघोडस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है। (5) पूर्वोक्त राशि के अलावा, आप निम्नलिखित का भूगतान करने के लिए भी उत्तरदायी

(क) प्रमाण पत्रधनिष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ऐसे ब्याज। (ख) इस नोटिस एवं वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाही की सेवा के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क एवं

वसूली अधिकारी

मेरे हाथ और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत, इस तिथि को दिया गया आदेश

... प्रतिवादी ... प्रतिवादी सं. 2 CAPITAL LIMITED प्लॉट नं. 12. औरंगजेब लेन, नई दिल्ली-110001

सिंध: 31.10.2022

क्र. 1. कर्जदार रों) का नम

123, मोदी स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001 मोबाइल - 9820019218/9082417042

परिशिष्ट-IV-ए [नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के साथ परित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सुचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रीं) एवं जमानती(यों) को सुचना दी जाती है कि प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिस पर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार हारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार से कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार के नीचे वर्णित राशि की वसुली हेतु निम्नलिखित तिथियों पर 'जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य, ईएमढी राशि तथा सम्पत्ति का विवरण नीचे वर्णित है।

भावी ख्याज

ऑनलाइन इं-नीलामी बिक्री के नियम एवं शतें सम्पत्ति की बिक्री ''जहाँ है जैसे है, जो है वहाँ है तथा उपचार रहित आधार'' पर की जा रही है। क्योंकि बिक्री बिना किसी वारंटी तथा इंडेम्निटी के है।

4. नीलामी केवल वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से ''ऑनलाइन इलेक्टॉनिक मोड'' में अथवा सेवा प्रदाता मैससं ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा प्रावधानित ऑक्शन

संविदाकारों को सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त होने के तुरन्त बाद अपना पासवर्ड बदल लेने की सलाह दी जाती है।

10. ईएमडी सहित संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि समाप्त होने पर अधिकृत प्राधिकारी प्राप्त संविदाओं की जाँच करेंगे और क्वालिफाइड संविदाकारों (जिन्होंने आरक्षित मुल्य से अधिक अपने कोट किये हैं और प्रतिभृत

18. नगर निगम/पंचायत कर, बिजली के बकाबे (बदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण के बकाबे (बदि कोई) का भूगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल संविद्याकार को करना होगा। संविदाएँ सम्पत्ति से सम्बन्धित

26. यह प्रकाशन उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी विक्री आयोजित होने के विषय में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अनुसार कथित उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/जमानतियाँ विशेष निर्देश/चेतावनी : अन्तिम मिनट/सेकण्ड में बोली लगाने से संविदाकार स्वयं के हित में बचें। न तो कैप्री ग्लोक्ल कैपिटल लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता ऐसे मापलों में संविदाकार के पक्ष पर किसी खामी/फेल्बोर

ह./- (अधिकृत प्राधिकारी) कैग्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

20. कन्वीएंस, स्टैम्प शुल्क, पंजीकरण प्रभार एवं अन्य आकस्मिक प्रभारों हेतु प्रयोज्य विधिक प्रभारों का वहन नीलामी क्रेता द्वारा किया जायेगा।

10. इंएमडी सहित संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि समाप्त होने पर अधिकृत प्राधिकारी प्राप्त संविदाओं की जाँच करेंगे और क्वालिफाइड संविदाकारी (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक अपने कोट किये हैं और प्रतिभूत

14. सफल संविदाकार को अपने पक्ष में होने पर संविदा राशि का 25% (ईएमडी सहित) विक्री के ही दिन जमा करना होगा तथा शेष 75% राशि कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में डीडी/पें

जमा करनी होगी जिसमें असफल रहने पर घरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। 18. नगर निगम/पंचायत कर, बिजली के बकाये (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण के बकाये (यदि कोई) का भुगतान बिक्की प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल संविदाकार को करना होगा। संविदाएँ सम्पत्ति से

21. अधिकृत प्राधिकारी बिना कोई कारण चताये ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया को स्थिगत/निरस्त कर सकते हैं। यदि ई-नीलामी बिक्री निर्धारित तिथि के 15 दिनों से पूर्व किसी बाद की तिथि को स्थिगत की जाती है तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

विशेष विदेश/चेतावनी : अन्तिम मिनट/सेकण्ड में योली लगाने से संविदाकार स्वयं के हित में वर्चे। न तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता ऐसे मामलों में संविदाकार के पक्ष पर किसी खार्मा/फेल्योर (इंटरनेट फेल्योर, पॉवर फेल्योर आदि) के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी विषम परिस्थित से बचने के लिए संविदाकार समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ/विकल्प जैसे बैक-अप पॉवर सप्लाई तथा जो कुछ भी अन्य अपेक्षित हो, कर लें ताकि वे ऐसी विषम परिस्थित से निपट सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।